

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 233
No. 263]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941	[N.C.T.D. No. 233

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

फा. सं. 36 (63)/समन्वय/मंडलायुक्त/2019/1455.— भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, संख्या 2503 दिनांक 31 जुलाई, 2019, का. आ. 2753 (अ).— गृह मंत्रालय, (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त) प्रकाशित अधिसूचना को सामान्य सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है—१ ६

का. आ. 2753 (अ).— नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद् द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, असम के

अलावा देशभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2020 की अवधि में किया जायेगा।

[फा. सं. 9/5/2019—सी आर डी (एनपीआर)]  
विवेक जोशी, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव वर्मा, प्रधान सचिव (राजस्व)

**OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER (REVENUE)**

(COORDINATION BRANCH)

**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th October, 2019

**F. No. 36 (63)/Coord./Div. Comm./2019/1455.**—The notification published in the Gazette of India, No. 2503 dated 31st July, 2019, S.O. 2753 (E) by the Ministry of Home Affairs, (Office of the Registrar General Citizen Registration, India) Government of India is hereby re-published for General Information:—

**S.O. 2753 (E).**—In pursuance of sub-rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country except Assam for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken between the 1st day of April, 2020 to 30th September, 2020.

[F.No. 9/5/2019-CRD (NPR)]  
VIVEK JOSHI, Registrar General of  
Citizen Registration

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV VERMA, Pr. Secy. (Revenue)